

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21—जून 27, 2014 (ज्येष्ठ 31, 1936)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21—JUNE 27, 2014 (JYAISTHA 31, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 1 जनवरी 2014

सं. आरएस/20/1/2013/105—कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री ज्ञान चंद, सहायक निदेशक, 31 दिसम्बर, 2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 मार्च 2014

सं. आरएस/20/1/2014/9—कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री बृज मोहन अरोड़ा, संयुक्त निदेशक (सं. और अनु.), 28 फरवरी, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 30 मई 2014

सं. आरएस./6/4/2014/39—कार्मिक—15वीं लोकसभा के 18 मई, 2014 से विघटन के परिणामस्वरूप, चूंकि राज्य सभा सचिवालय द्वारा सेवित विभाग—संबंधित संसदीय स्थायी समितियां भंग हो चुकी हैं, अतः निम्नलिखित व्यक्तियों, जिनके नाम नीचे विभाग—संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के उन संबंधित अध्यक्षों के सामने दशाये गए हैं जिनके निजी

स्टाफ में उन्हें सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 19 मई, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करते हुए 2 जून, 2014 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं :-

क्रम सं.	नाम और पदनाम	समिति और इसके अध्यक्ष का नाम
1.	श्री कीर्ति प्रसाद अवस्थी, वरिष्ठ निजी सचिव	अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति (श्री ब्रजेश पाठक)
2.	श्री अमित कादयान, वरिष्ठ निजी सचिव	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति (श्री बीरेन्द्र सिंह)
3.	श्री संजय घटक, वरिष्ठ निजी सचिव	उद्योग संबंधी समिति (श्री के. सी. त्यागी)
4.	श्री अमित शर्मा निजी सचिव	अध्यक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति (श्री शान्ताराम नायक)

2. जैसा कि उपर्युक्त सारणी की क्रम सं. 4 में दर्शाया गया है, श्री अमित शर्मा, जो राज्य सभा सचिवालय में सुरक्षा सहायक ग्रेड-1 के रूप में सेवारत हैं, की सेवाएं परिसमापन अवधि के समाप्त होने पर इस सचिवालय को सुपुर्द की जाएंगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 30 मई 2014

सं.आरएस./6/4/2014/41-कार्मिक—याचिका संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कोश्यारी के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री जगदीश सिंह की सेवाएं, 17 मई, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत अपराह्न 31 मई, 2014 से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 जून 2014

सं.आरएस/20/1/2014/40-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री लक्ष्मण बाबूराव शिंदे, संयुक्त सचिव (भाषांतरण), 31 मई, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/6/4/2014/44-का.—श्री रवि शंकर प्रसाद, उप नेता, भाजपा, राज्य सभा के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री सौरव कुमार की सेवाएं 26 मई, 2014 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2014

सं. ए-19012/01/2008-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.06.2014 के आदेश सं. 15/5/2014-ईओ(एसएम. I) के तहत श्रीमती अजंता दयालन, आई.ए.एंड.एस. (78), मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव की प्रतिनियुक्ति अवधि को 06.06.2014 से आगे तीन महीने के लिए बढ़ाते हैं।

के.जे. सिबिचन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2014

सं.ए-43011/23/2004-प्रशा.।—योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा दिए गए त्यागपत्र को प्रधानमंत्री जी द्वारा 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, वे 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न से योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

सं.ए-43011/23/2004-प्रशा.।—योजना आयोग के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिए गए त्यागपत्रों को प्रधानमंत्री जी द्वारा 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, वे 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न से योजना आयोग के सदस्य नहीं रहेंगे।

- (i) डॉ. अभिजीत सेन
- (ii) श्री अरुण मायरा
- (iii) श्री बी.के. चतुर्वेदी
- (iv) डॉ. के. कस्तूरीरंगन
- (v) डॉ. मिहिर शाह
- (vi) डॉ. नरेन्द्र जाधव
- (vii) श्री सौमित्र चौधरी
- (viii) डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 28 मई 2014

सं.ए.-43011/01/2005-प्रशा.।—प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन द्वारा दिए गए त्यागपत्र को प्रधानमंत्री जी ने 26 मई, 2014 से स्वीकार कर लिया है। अतः वे 26 मई, 2014 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नहीं रहेंगे।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

सं.ए.-43011/01/2005-प्रशा.।—प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिए गए त्यागपत्रों को प्रधानमंत्री जी ने 26 मई, 2014 से स्वीकार कर लिया है। अतः वे 26 मई, 2014 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे:

- (i) डॉ. दिलीप एम. नाचने
- (ii) डॉ. पुलिन बी. नायक
- (iii) डॉ. सौमित्र चौधरी
- (iv) प्रो. वी. एस. व्यास

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली—110001, दिनांक 2 जून 2014

सं. ए—19011/117/2014—यू.आई.डी.ए.आई.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/7/2013/ई.ओ. (एम.एम.—I) दिनांक 31.12.2013 के तहत सूचित केबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी के अनुमोदन तथा सिविकम सरकार, (कार्मिक, प्रशा. सुधार, प्रशिक्षण तथा जन-शिकायत विभाग) के कार्यालय आदेश सं. 11/जनरल/डी.ओ.पी. दिनांक

28.04.2014 के अनुसरण में, श्री प्रदीप कुमार (आई.एफ.एस.—सिविकम-95) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी. ए.आई.) के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में वेतन बैंड 37,400—67,000/— (वेतन बैंड-4) + 8,700/— रु. ग्रेड पे में 19.05.2014 (पूर्वाह्न) से सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती पांच वर्षों के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन. के. शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2014

सं. ए-19011/118/2014-यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21/ए.डी.जी. (हैडक्वार्टर)/09-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 04.04.2014 तथा एयर हैडक्वार्टर के पत्र सं. एयर हैडक्वार्टर/21974/जनरल/पी.ओ.—I (डी.ई.पी.) दिनांक 28 मई 2014 के अनुसरण में, गुप कैप्टन वी. एन. श्रीनिवास (17916), ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में वेतन बैंड 37,400—67,000/— + 8,700/— रु. ग्रेड पे में 02.06.2014 (पूर्वाह्न) से सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस. डी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (स्था.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2014

सं. ए.-32013/1/2014-प्रशा.-(वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष श्री बृजेश सिंह, उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा), राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के उक्त खंड में नियमित आधार पर अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) के पद पर रूपए 37400-67000/- के वेतन बैंड 4 और रूपए 8700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 29 मई, 2014 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2014

सं.ए.-38014/11/2013-प्रशा.।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री आर.पी. शर्मा, निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं.ए.-38014/08/2013-प्रशा.।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री रॉबिन मजूमदार, अनुभाग अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-20/जी/1412-प्रशा.।—सी.एस प्रभाग के दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश संख्या 3/1/2011-सी.एस-1(डी) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री मुकेश चतुर्वेदी की निदेशक के रूप में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें 37400-67000/- के (वेतन बैंड-4) + 8700/- रु. के ग्रेड वेतन में निदेशक के पद पर दिनांक 7 मार्च, 2014 पूर्वाह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं.ए.38014/02/2014-प्रशा.।—अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, श्री एस.एस. कम्बोज, अनुभाग अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 31 मार्च, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/जी/1645-प्रशा.-।—इस विभाग के दिनांक 19.03.2014 के आदेश सं. 5/1/2014-सीएस-।(यू) के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री एस.के. प्रसाद अवर सचिव को वेतन बैंड-3 में 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 6600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 02 मई, 2014 अपराहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए 20/5/1537-प्रशा.।— इस विभाग के दिनांक 30.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/2/2013-सी.एस-॥ (क) के तहत प्रधान निजी सचिव के रूप में उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप, श्री वी. एस. नरसिम्हन को स्थायी आधार पर (चयन सूची 2013) वेतन बैंड 15600-39100/- रु.+ ग्रेड वेतन 6600/- रु. में दिनांक 30.04.2014 के पूर्वाहन से, सी एस एस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/एस/1451-प्रशा.।— राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 30.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/2/2013-सीएस-॥(क) के तहत मुख्य निजी सचिव के रूप में उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती कृष्णा केन, निजी सचिव को स्थायी आधार पर (चयन सूची-2013) वेतन बैंड-3, 15,600-39,100/- रु. (वेतन बैंड-4) में ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए के साथ दिनांक 30.04.2014 के पूर्वाह्न से केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएसएस) के मुख्य निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं.ए.38014/03/2014-प्रशा.।—अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, श्री एच. के. ग़ोवर, निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 31 मार्च, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 5 जून 2014

सं.11011/53/2014-प्रशि(सप्रप्रसं)—राष्ट्रपति, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के उप निदेशक (प्रबंधन सेवायें) श्री राजीव कुमार कुंडी का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 11.05.2014 (पूर्वाहन) से छ माह के लिए अथवा उसके स्थान पर नये पदाधिकारी के पद ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2014

सं. क्यू/पीबी-II/6616/29/2010—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात श्री राजेन्द्र सिंह (जन्मतिथि 14.04.1954), इस मंत्रालय में पूर्व निजी सचिव, (भा.वि.से (बी) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-। के आशुलिपिक) 30 अप्रैल, 2014 के पूर्वाहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

लतिका ग़ोवर, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-।।)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2014

सं. 06/03/2004-एफ.बी-2—श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार को 27 मई, 2014 से श्री पी. चिदंबरम के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) तथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम.आई.जी.ए.) के शासक मंडल में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

बृजेश पांडेय, उप सचिव(एम.आई.)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2014

सं. 1/2/2009-एफ.बी-1(पार्ट-I)—श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार को 27 मई, 2014 के श्री पी. चिदंबरम के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के गवर्नर मंडल में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

अपर्णा भाटिया, निदेशक (एमआई)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014

सं.ए-12023/07/2012-स्था.।—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31.05.2015 तक या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में कार्यभार संभालने से पहले जिस मंत्रालय/विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात थे
1.	श्री पी.के. मिश्रा	7606	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	श्री वी.के. सिन्हा	7816	नागर विमानन मंत्रालय
3.	श्री बृजेश कुमार शर्मा	8168	रक्षा मंत्रालय
4.	श्री प्रमोद कपूर	8337	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

इस तदर्थ नियुक्ति को 31.05.2015 तक बढ़ाया जाना केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-I (यू) दिनांक 26 मई, 2010 में दी गई शर्तों तथा बाद के कई आदेशों के अधीन भी है।

एल.के.शर्मा, अवर सचिव

विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली - 110016, दिनांक 31 मई 2014

सं.ए-38018/11/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, श्रीमती सेलीना कुजूर, अवर सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 मई, 2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 जून 2014

संख्या. ए. 12025/152/2010-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. तबस्सुम खातून को दिनांक 19.10.2012 के अपराहन से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600-39100 रूपए) + ग्रेड वेतन 5400/- रूपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. तबस्सुम खातून को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. तबस्सुम खातून नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2014

सं. 4-9/2012-विस्तार—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (टी-7-8) डा० ओम प्रकाश दहिया को रुपये 15600-39100/-(वेतन बैंड-3)+ग्रेड वेतन रुपये 7600/- के वेतनमान में विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में निदेशक (फार्म सूचना) जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय के पद पर 22 मई, 2014 के पूर्वाहन से अल्प अवधि करार आधार पर चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं।

आर.एस.वर्मा, अवर सचिव

सं. 4-9/2013-विस्तार—राष्ट्रपति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के तकनीकी अधिकारी (आई ए) डा. वेन्कटेशवरन वी. को रुपये 15600-39100/-(वेतन बैंड-3)+ग्रेड वेतन रुपये 5400/- के वेतनमान में विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में विस्तार अधिकारी, जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय के पद पर 20 मई, 2014 के पूर्वाहन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं।

आर.एस.वर्मा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2014

सं. 4-3/2014-प्रशा. V—राष्ट्रपति, श्री एम० सी० रविकुमार, सहायक निदेशक (सिविल इंजिनियरिंग) को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलोर में 2 जून, 2014 के पूर्वाहन से 15,600-39,100 रुपये के पे-बैंड-3 में 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ उप निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2014

सं. ए-32013/1/2014-ई. III—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के यूनिट काडर में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव श्रीमती प्रसन्ना राजन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के

का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस-II(ए) द्वारा वर्ष 2013 की प्रधान निजी सचिव की सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात् दिनांक 12.05.2014 (पूर्वाहन) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के काडर यूनिट में पे बैंड-3 (15600-39100+ ग्रेड पे 6600/- रुपए) में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं.ए-32013/1/2014-ई.III—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के यूनिट काडर में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव श्री इकबाल कृष्ण चौधरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस-II(ए) द्वारा वर्ष 2013 की प्रधान निजी सचिव की सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात् दिनांक 30.04.2014 (अपराहन) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के काडर यूनिट में पे बैंड-3 (15600-39100+ ग्रेड पे 6600/- रुपए) में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं.ए-32013/1/2014-ई.III—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के यूनिट काडर में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव श्रीमती कुसुम अरोड़ा को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस-II(ए) द्वारा वर्ष 2013 की प्रधान निजी सचिव की सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात् दिनांक 30.04.2014 (अपराहन) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के काडर यूनिट में पे बैंड-3 (15600-39100+ ग्रेड पे 6600/- रुपए) में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/05--सुश्री सुजाता जयराज, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएएस (जन्म तिथि: 15.07.1959, डीआईटीएस: 06/09/1983) का सीएमआरएल में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 21.04.2014 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव

रेलवे बोर्ड

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2014

संख्या ए-12025/1/2011-आईआईएस(भाग फाइल)/2/6—राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से 5400/- रु. के ग्रेड-पे सहित 15,600-39,100 रु. के पे-बैंड में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	सीएसई संख्या के साथ उम्मीदवारों के नाम	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री राहुल गौलीकर (सीएसई-2011)	637	17.07.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
2.	श्री एस.आर.डी. मल्होत्रा (सीएसई-2011)	863	31.12.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली

1	2	3	4	5
3.	श्री अनुज चंडेक (सीएसई-2011)	920	16.12.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
4.	श्री कपिल गड़े (सीएसई-2011)	923	02.09.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
5.	श्री पवन सिंह फौजदार (सीएसई-2011)	924	08.01.2014 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
6.	श्री सी.के. पटेल (सीएसई-2011)	931	19.12.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
7.	श्री निजो वर्गीस (सीएसई-2011)	933	17.12.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
8.	श्री के.टी. अरुण (सीएसई-2011)	934	16.12.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
9.	श्री गुरु प्रसाद एच.एल. (सीएसई-2011)	938	02.09.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
10.	सुश्री पुनीता एस. (सीएसई-2011)	939	02.09.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
11.	श्री पी.एन. हेमुभाई (सीएसई-2011)	941	02.09.2013 (पूर्वाहन)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
12.	श्री अनीस हेगड़े (सीएसई-2011)	944	11.12.2013 (पूर्वाहन)	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
13.	श्री अरुण कुमार पी. (सीएसई-2011)	949	02.09.2013 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
14.	श्री सौरभ सिंह (सीएसई-2011)	951	02.09.2013 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
15.	श्री गौरव खरे (सीएसई-2011)	953	02.09.2013 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
16.	श्री सौरभ कुमार (सीएसई-2011)	955	02.09.2013 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
17.	श्री अभिनव प्रसून (सीएसई-2011)	964	12.12.2013 (पूर्वाहन)	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
18.	श्री विराट मजबूर (सीएसई-2011)	981	02.09.2013 (पूर्वाहन)	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
19.	श्री पी.एम. गुलाबराव (सीएसई-2011)	984	16.12.2013 (पूर्वाहन)	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

1	2	3	4	5
20.	श्री टिडके राहुल आत्माराम (सीएसई-2011)	991	22.01.2014 (पूर्वाह्न)	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
21.	श्री सईद रबीहाशमी (सीएसई-2011)	997	06.02.2014 (पूर्वाह्न)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
22.	श्री आर. श्याम (सीएसई-2012)	565	02.09.2013 (पूर्वाह्न)	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली
23.	श्री अनुभव सिंह (सीएसई-2012)	966	06.02.2014 (पूर्वाह्न)	दूरदर्शन, नई दिल्ली

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। उन्हें अगले आदेशों तक उपर्युक्त माध्यम एककों में सहायक निदेशकों के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st January 2014

No.RS/20/1/2013/105-Perl.---On attaining the age of superannuation, Shri Gian Chand, Assistant Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2013.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 3rd March 2014

No.RS/20/1/2014/9-Perl.---On attaining the age of superannuation, Shri Brij Mohan Arora, Joint Director (E&T), retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 30th May 2014

No.RS/6/4/2014/39-Perl.---Consequent upon the dissolution of the 15th Lok Sabha w.e.f. 18th May, 2014, as the Department-related Parliamentary Standing Committees serviced by the Rajya Sabha Secretariat stand dissolved, the services of the following persons, who were appointed as Senior Private Secretary/Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of respective Chairmen of the Department-related Parliamentary Standing Committees shown against their names, stand terminated w.e.f. the afternoon of 2nd June, 2014 after granting them a winding up period of 15 days w.e.f. 19th May, 2014:-

S.No.	Name & Designation	Name of the Committee & Chairman
1.	Shri Kirti Prasad Awasthi, Senior Private Secretary	Chairman, Committee on Health & Family Welfare [Shri Brajesh Pathak]
2.	Shri Amit Kadyan, Senior Private Secretary	Committee on Human Resource Development (Shri Birender Singh)
3.	Shri Sanjay Ghatak, Senior Private Secretary	Committee on Industry (Shri K.C. Tyagi)
4.	Shri Amit Sharma, Private Secretary	Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice[Shri Shantaram Naik]

2. The services of Shri Amit Sharma as indicated in serial No. 4 in the table above who is Security Assistant Grade-I in the Rajya Sabha Secretariat, shall stand placed at the disposal of this Secretariat on expiry of the winding up period.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 2nd June 2014

No.RS/20/1/2014/40-Perl.--- On attaining the age of superannuation, Shri Laxman Baburao Shinde, Joint Secretary (Interpretation), retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No.RS/6/4/2014/41-Perl.---The services of Shri Jagdish Singh who was appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Shri Bhagat Singh Koshyari, Chairman of the Standing Committee on Petitions, stand terminated w.e.f. the afternoon of 31st May, 2014 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 17th May, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 3rd June 2014

No.RS/6/4/2014/44-Perl.----The services of Shri Saurav Kumar who was appointed as Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Shri Ravi Shankar Prasad, Deputy Leader, BJP, Rajya Sabha, stand terminated w.e.f. the afternoon of 26th May, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 5th June 2014

No. A-19012/01/2008-Ad-I---The President is pleased to extend the deputation tenure of Smt. Ajanta Dayalan, IA&AS(78), Additional Secretary in Cabinet Secretariat for a period of three months beyond 06.06.2014 vide Department of Personnel and Training's Order No. 15/5/2014 EO(SM.I) dated 4.6.2014.

K.J.SIBICHAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 26th May 2014

No.A-43011/23/2004-Adm.I--- The resignation submitted by Shri Montek Singh Ahluwalia, Dy. Chairman, Planning Commission has been accepted by the Prime Minister with effect from the forenoon of 26 May, 2014. Accordingly, he ceases to be Deputy Chairman of the Planning Commission with effect from the forenoon of 26 May, 2014.

S. MUKHERJEE, Director (Admn.)

No.A-43011/23/2004-Adm.I:- The resignations submitted by the following Members of the Planning Commission have been accepted by the Prime Minister with effect from the forenoon of 26 May, 2014. Accordingly, they cease to be Members of the Planning Commission with effect from the forenoon of 26 May, 2014 :

- (i) Dr. Abhijit Sen
- (ii) Shri Arun Maira
- (iii) Shri B.K. Chaturvedi
- (iv) Dr. K. Kasturirangan
- (v) Dr. Mihir Shah
- (vi) Dr. Narendra Jadhav
- (vii) Shri Saumitra Chaudhuri
- (viii) Dr. (Ms.) Syeda Hameed

S. MUKHERJEE, Director (Admn.)

The 28th May 2014

No.A-43011/01/2005-Adm.I---The resignation submitted by Shri Dr. C. Rangarajan, Chairman, EAC to PM has been accepted by the Prime Minister with effect from 26 May, 2014. Accordingly, he ceases to be Chairman, EAC to PM with effect from 26 May, 2014.

S. MUKHERJEE, Director (Admn.)

No.A-43011/01/2005-Adm.I---The resignations submitted by the following Members of the EAC to PM have been accepted by the Prime Minister with effect from 26 May, 2014. Accordingly, they cease to be Members of EAC to PM with effect from 26 May, 2014 :

- (i) Dr. Dilip M. Nachane
- (ii) Dr. Pulin B. Nayak
- (iii) Dr. Saumitra Chaudhuri
- (iv) Prof. V. S. Vyas

S. MUKHERJEE, Director (Admn.)

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 2nd June 2014

No. A-19011/117/14-UIDAI—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 7/7/2013-EO (MM-I) dated 31.12.13 and Govt. of Sikkim, Department of personnel, Adm. Reforms, Training & Public Grievances, Gangtok-Sikkim Office Order No. 11/Gen/DOP dated 28.04.14, Shri Pradeep Kumar (IFS-SK 95) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) Unique Identification Authority of India, (UIDAI), Regional Office, Lucknow w.e.f. 19.05.14 (f/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8,700/- for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Dy. Dir. (Estt.)

New Delhi-110001, the 5th June 2014

No. A-19011/118/2014-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi Letter No. A-12013/21/ADG(HQ)/09-UIDAI dated 04.04.14 and Air HQ Letter No. Air HQ/21974/Gen/PO-1(Dep) dated 28 May 14, Gp Capt V. N. Srinivas (17916), has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f. 02.06.14 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

S. D. SHARMA, Asstt. Dir. Gen. (Estt.)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 29th May 2014

No. A.32013/1/2014-Admn.I (LD)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Brijesh Singh, Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Pay-Band-4 of Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay of Rs.8,700/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on regular basis w.e.f. the forenoon of 29th May, 2014 and until further orders.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 4th June 2014

No. A. 38014/11/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. P. Sharma, Private Secretary, Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A. 38014/08/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Robin Majumdar, Section Officer, Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A. 20/G/1412-Ad.I—Consequent upon his promotion to the post of Director vide CS Division's Order No.3/1/2011-CS-I(D) dated 7th March, 2014, the President is pleased to appoint Shri Mukesh Chaturvedi, Deputy Secretary of the Central Secretariat Service as Director in Department of Personnel and Training, in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from forenoon of 7th March, 2014.

D.K.SENGUPTA, Under Secy.

No. A- 38014/02/2014-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S. S. Kamboj, Section Officer, Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1645-Admn.I—Consequent upon his transfer from National Disaster Management Authority to this department vide DoP&T's Order No. 5/1/2014-CS-I(U) dated 19.03.2014, Shri S. K. Prasad, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15,600-39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from afternoon of 02nd May, 2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No. 20/S/1537-Ad.I—Consequent upon his promotion to the grade of Principal Private Secretary of the CSSS vide this Department's O.M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30.04.2014, the President is pleased to appoint Shri V. S. Narasimhan, Private Secretary as Principal Private Secretary on regular basis (Select List- 2013) in the Pay Band 3: Rs 15,600-39,100/-, Grade Pay Rs. 6,600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 30.04.2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No. 20/S/1451-Ad.I—Consequent upon hir promotion to the grade of Principal Private Secretary of the CSSS vide this Department's O.M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30.04.2014, the President is pleased to appoint Smt. Krishna Kain, Private Secretary as Principal Private Secretary on regular basis (Select List- 2013) in the Pay Band 3: Rs 15,600-39,100/-, Grade Pay Rs. 6,600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 30.04.2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A- 38014/03/2014-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri H. K. Grover, Private Secretary, Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2014.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-110067, the 5th June 2014

No.11011/53/2014-Trg. (ISTM)—The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Rajeev Kumar Kundi, Deputy Director (Management Services), Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi for a period of six months w.e.f. 11.05.2014 (forenoon) or till the new incumbent joins in his place, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th May 2014

No.Q /PB-II/6616/29/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Rajendra Singh [DoB : 14.04.1954], formerly Private Secretary [Grade I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government Service in the afternoon of 30th April, 2014.

LATIKA GROVER, Admn. Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 29th May 2014

No. 06/03/2004-FB-II—Shri Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) with effect from 27th May, 2014 vice Shri P. Chidambaram.

BRIJESH PANDEY, Dy. Secy. (MI)

New Delhi, the 2nd June 2014

No. 1/2/2009-FB.I (Pt.I)--Shri Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the International Monetary Fund (IMF) with effect from 27th May, 2014 vice Shri P. Chidambaram.

APARNA BHATIA, Director (MI)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 28th May 2014

No.A-12023/07/2012-E.I--The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Section Officers of CSS as Under Secretary (Grade-I of CSS) for the period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, in the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry:--

Sl. No.	Name of officer	CSL No.	Min/Deptt. where posted as SO before joining DIPP
1.	Shri P.K. Mishra	7606	DIPP
2.	Shri V.K. Sinha	7816	M/o Civil Aviation
3.	Shri Brijesh Kumar Sharma	8168	M/o Defence
4.	Shri Pramod Kapoor	8337	DIPP

The extension of the ad-hoc appointment upto 31.05.2015 is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training Orders No. 5/3/2010-CS.I (U) dated 26th May, 2010 and subsequent several orders for promotion of Section Officers of the CSS to the grade of Under Secretary on ad-hoc basis.

L.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 31st May 2014

No. A-38018/11/2014-Estt.—The President is pleased to retire Smt. Celina Kujur, Under Secretary, Department of Scientific and Industrial Research from Govt. service on 31st May, 2014 (AN) on her attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 2nd June 2014

No.A.12025/152/2010-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Tabassum Khatoon to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 [Rs.15,600--39,100/-] + Rs.5,400/-(Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 19.10.2012 until further orders. Dr. Tabassum Khatoon is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Lucknow. Dr. Tabassum Khatoon will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th June 2014

No.4-9/2012-Extn.--The President is pleased to appoint Dr. Om Prakash Dahiya, Assistant Chief Technical Officer (T-7-8), National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi to the post of Director (Farm Information), G.C.S., Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the Scale of Pay of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs.7,600/- in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Corporation, Ministry of Agriculture, New Delhi on short term contract basis with effect from the forenoon of 22nd May, 2014 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

R.S.VERMA, Under Secy.

No.4-9/2013-Extn.--The President is pleased to appoint Dr. Venkateswaran V., Technical Officer(IA), M/o Food Processing Industries, New Delhi to the post of Extension Officer, G.C.S., Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/-(PB-3) + Grade Pay of Rs.5,400/- in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Corporation, Ministry of Agriculture on deputation basis with effect from the forenoon of 20th May, 2014 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

R.S.VERMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 9th June 2014

No. 4-3/2014-Admn.V--The President is pleased to promote Shri M.C. Ravikumar, Assistant Director (Civil Engineering) to the post of Deputy Director (Civil Engineering) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band-3 of Rs.15,600--39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore under the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture with effect from the forenoon of 2nd June, 2014.

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 15th May 2104

No. A-32013/1/2014-E-III--The President is pleased to appoint Smt. Prasanna Rajan, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service working in the cadre unit of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) to the Grade of Principal Private Secretary on regular basis in PB-3 (Rs.15,600—39,100/-+Grade Pay Rs.6,600/-) in the cadre unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 12.05.2014(FN) after inclusion of her name in the Select List of Principal Private Secretary for the year 2013 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/2/2013-CS-II (A) dated 30.04.2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-32013/1/2014-E-III--The President is pleased to appoint Shri Iqbal Krishan Chaudhary, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service working in the cadre unit of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) to the Grade of Principal Private Secretary on regular basis in PB-3 (Rs.15,600—39,100/-

+Grade Pay Rs.6,600/-) in the cadre unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 30.04.2014(AN) after inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary for the year 2013 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/2/2013-CS-II (A) dated 30.04.2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy

No. A-32013/1/2014-E-III--The President is pleased to appoint Smt. Kusum Arora, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service working in the cadre unit of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) to the Grade of Principal Private Secretary on regular basis in PB-3 (Rs.15,600--39,100/-+Grade Pay Rs.6,600/-) in the cadre unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 30.04.2014(AN) after inclusion of her name in the Select List of Principal Private Secretary for the year 2013 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/2/2013-CS-II (A) dated 30.04.2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th June 2014

No. E(O)III-2014/RN/05--Consequent upon her permanent absorption in CMRL, Ms. Sujatha Jayaraj, SAG/IRAS, (DoB-15.07.1959, DITS 06.09.1983) has resigned from Railway Service with effect from 21.04.2014.

P C GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi the 24th March 2014

No.A-12025/1/2011-IIS(Pt.file)/ 216: On the basis of the result of the Civil Services Examination, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs.15,600--39,100/- with Grade Pay of Rs.5400/- with effect from the dates mentioned against their names:-

Sl. No.	Name of the Candidates with CSE No.	Rank No.	Date of appointment	Place of posting
1.	Sh. Rahul Gowlikar (CSE – 2011)	637	17.07.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
2.	Shri S.R.D. Mattoshree (CSE – 2011)	863	31.12.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
3.	Sh. Anuj Chandek(CSE-2011)	920	16.12.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
4.	Sh. Kapil Gade (CSE-2011)	923	02.09.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
5	Sh. Pawan Singh Faujadar (CSE-2011)	924	08.01.2014(FN)	DDN New Delhi
6.	Sh. C.K. Patel (CSE-2011)	931	19.12.2013 (FN)	NSD:AIR New Delhi
7.	Sh. Nijo Varghese (CSE-2011)	933	17.12.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
8.	Sh. K.T. Arun (CSE-2011)	934	16.12.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
9.	Sh. Guru Prasad H.L. CSE-2011	938	02.09.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
10.	Ms. Punitha S. (CSE-2011)	939	02.09.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi

Sl. No.	Name of the Candidates with CSE No.	Rank No.	Date of appointment	Place of posting
11.	Sh. P.N. Hemubhai (CSE-2011)	941	02.09.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
12.	Sh. Aneesh Hegde (CSE-2011)	944	11.12.2013(FN)	DPD, New Delhi
13.	Sh. Arun Kumar P. (CSE-2011)	949	02.09.2013(FN)	DDN, New Delhi
14.	Sh. Saurabh Singh (CSE-2011)	951	02.09.2013(FN)	DDN, New Delhi
15.	Sh. Gaurav Khare (CSE-2011)	953	02.09.2013(FN)	DDN, New Delhi
16.	Sh. Saurabh Kumar (CSE-2011)	955	02.09.2013(FN)	DDN, New Delhi
17.	Sh. Abhinav Prasoon (CSE-2011)	964	12.12.2013(FN)	PIB New Delhi
18.	Sh. Virat Majboor (CSE-2011)	981	02.09.2013(FN)	PIB, New Delhi
19.	Sh. P.M. Gulabrao (CSE-2011)	984	16.12.2013(FN)	PIB, New Delhi
20.	Sh. Tidke Rahul Atmaram (CSE-2011)	991	22.01.2014(FN)	PIB, New Delhi
21.	Sh. Sayyid Rabeehashmi (CSE-2011)	997	06.02.2014(FN)	DDN, New Delhi
22.	Sh. R. Shyam (CSE-2012)	565	02.09.2013(FN)	NSD:AIR New Delhi
23.	Sh. Anubhav Singh (CSE-2012)	966	06.02.2014(FN)	DDN, New Delhi

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'. They have been posted as Assistant Directors in the above mentioned media units until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC. 2]—75 Copies.